

MAHAAN FOODS LIMITED

Registered Office: M-19, 1st Floor, M Block Market, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 India

Ref: MFL/BSE/2019-20

31st August, 2020

The General Manager (Listing & Corporate Relations) Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai — 400001

Scrip Code: 519612 MAHAAN FOODS LIMITED

SUB: Newspaper Advertisement of the Financial Results for the quarter Ended on 30th June, 2020

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Please find enclosed herewith the copies of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 published in the following newspapers:

- 1. Financial Express (National Daily newspaper -All English Edition), on 30th August, 2020
- 2. Jansatta (Daily Newspaper- All Hindi Edition), on 30th August, 2020

This is for your information and record please.

Thanking You,

Yours faithfully

FOR MAHAAN FOODS LIMITED

Ayushi Vijay
Company Secretary & Compliance Officer

M.NO.: A55853

Enc: Newspaper Advertisement

FE SUNDAY

Year ended



PROPERTY FOR SALE

Industrial Property available For Sale & Rent In Pune Industrial Area (10k To 25 acre) in Chakan, Talegaon, Hinjewadi, Bhosari, NagarRoad, SataraRoad, Shirwal Khandala . Contact Vasu Patil 9657141085

0050168128-1

PUBLIC NOTICE Daleram R/o 110, Janta Colony, Circular Road, Shahdara, Delhi-110032, has debarred his son Devender Kumar from her all movable-immovable properties due to his misconduct. misbehaviour, and anti social aliments. Any Person dealing With his, then

they will be self responsible. Praveen Kumar (Advocate) Ch. No. D-324, Karkardooma Courts, Delhi





ZOSARB,13th Floor, Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, New Delhi-110001, Ph.: 011-23441320, Mobile: 9711908984, E-mail: armdel@bankofbaroda.com

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 read with provision to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable/movable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank, will be

sold on "As is where is" "As is what is", and "Whatever there is" on 16.09.2020, for recovery of below mentioned dues to the Bank. The Reserve price and EMD is displayed against the details of respective properties as under:-Date of Demand | Reserve price (Rs.) **Property** Description Name of the Possession Inspection Date and Sr. Branch notice U/s 13(2) EMD of the property borrower and

| | | borrower and | of the property | | | time of | (Symbolic/ | |
|-----|----------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| - 1 | | Guarantors | & ownership | O/s Dues | Minimum bid increase amount | E-auction | Physical) | date & time |
| 1. | ZOSARB, NEW DELHI | M/s M B Malls Pvt. Ltd. 1. Mr Shri Chand Keswani-Director & Guarantor 2. Mr. Jai Prakash Keswani-Director & Guarantor 3. Mr. Om Prakash Keswani-Director & Guarantor 4. Mr. Harish Keswani-Director & Guarantor | Equitable Mortgage with OBC under Pari Passu charge on Land and Building (project site) situated on plot No. 13/6, Mustatil No. 5, Killa No. 8,9,10,11,12/1 Mewala Mahrajpur, Faridabad, Haryana, admeasuring 3,6875 acres standing in the name of M/s M B Malls P | 08.10.2015 Oriental Bank of Commerce- Rs. 31,61,71,133.00 (Rupees thirty one crointerest+ other charge amount deposited afte lac sixty nine thousand charges / cost etc. as safterwards. | Rs 72.00 crore Rs.7.20 crore Rs 1.00 lakhs re sixty one lac seventy one s / cost etc. as stated in the rwards and Bank of Baroda- seven hundred eighty eight tated in the demand notice i | e demand notice i - 23,02,69,788.89 and eighty nine pa ssued u/s 13 (2) c | undred thirty thre ssued u/s 13 (2) (Rupees twenty aise only) + future of the Act, less an | of the Act, less three crore two e interest+ other |
| | | | are nome or all a m b mois r | ALTERNIT TONIOLOUGH - 1 E-S | moporomoco, reo anopar on | incommerce directory | www.rauluj. | (WEALS) |

East: Ohers Property, West: Mathura Road (NH-2), North: Hundai Central Training Centre, South: Mitsubishi and Panorama Exports, Near-NHPC Chowk, Delhi-Mathura Road,

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link providen in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in also,

prosective bidders may contact the authorized officer Mr. P Gangte on Tel No. 011-23441320 Mobile 9711908984 Authorized Officer, Bank of Baroda

Date: 28.08.2020, Place: New Delhi

E-AUCTION

SALE NOTICE

SHARE INDIA SECURITIES LIMITED CIN: L67120GJ1994PLC115132

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter

Registered Office: Unit No 604A-B 605A-B 6th Floor, Tower A, World Trade Centre Gift City Block-51, Zone-5, Road 5E, Gift City, Gandhinagar Gujarat-382355

Tel: +91-11-43011000 Email: vikas_cs@shareindia.com

| Ended 30th June, 2020 Amount | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| SI. | PARTICULARS | Quarter Ended 30/06/2020 | Quarter Ended 31/03/2020 | Quarter Ended 30/06/2019 | Financial Year Ended 31/03/2020 | | |
| No. | | Unaudited | Audited | Unaudited | Audited | | |
| 1 | Total Income from operations | 95,44,50,457 | 1,05,61,20,239 | 51,70,91,452 | 2,79,34,56,967 | | |
| 2 | Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items) | 17,78,92,779 | 21,23,80,621 | 8,16,85,954 | 50,68,03,128 | | |
| 3 | Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 17,78,92,779 | 21,23,80,621 | 8,16,85,954 | 50,68,03,128 | | |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 13,38,24,322 | 16,99,20,977 | 5,45,15,407 | 40,00,17,908 | | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 13,42,05,054 | 15,99,55,558 | 5,45,15,407 | 39,00,52,489 | | |
| 6 | Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-) | 31,90,65,880 | 31,90,65,880 | 24,42,45,880 | 31,90,65,880 | | |
| 7 | Earning Per Share (of Rs 10/-each) [Basic and diluted] | 4.19 | 5.33 | 1.71 | 12.54 | | |

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of Financial results for quarter ended on 30th June, 2020 filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the company's website at www.shareindia.com-

The key Standalone Financial information for the quarter ended 30th June, 2020 are given below;

| Particulars | Quarter Ended 30/06/2020 | | Quarter Ended 30/06/2019 | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Turnover | 88,05,09,430 | 98,39,63,510 | 48,76,51,764 | 2,59,98,51,832 | |
| Profit before tax | 14,95,21,967 | 18,71,92,689 | 6,69,32,085 | 43,78,14,748 | |
| Profit after tax | 11,18,38,869 | 14,67,14,235 | 4,49,15,068 | 33,50,13,621 | By order of the Board |
| 1900,000 | No. | | | For Share | India Securities Limited |

Place : Delhi Parveen Gupta, Managing Director, DIN: 00013926 Date : 28, 08, 2020

Bank of Baroda

ZOSARB,13th Floor, Bank of Baroda Building, 16, Sansad Marg, New Delhi-110001

POSSESSION NOTICE (For Immovable Properties) {Rule 8 (1)}
Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstructions of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the power conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice dated 16.02.2019 calling upon them M/s Kavit Industries, Proprietor Mr. Kavit Manchanda to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,81,40,391/- (Rupees Nine Crore Eighty One Lac Forty Thousand Three Hundred Ninety One Only) as on 15.02.2019 together with further interest thereon plus other charges and expenses, within 60 days from the date of notice.

The Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties/ assets described herein below in exercise of powers conferred on him under Section (4) of Section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 26th day of August, 2020.

The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the said Property/ assets and any dealing with the property/ assets will be subject to the charge of the Bank of Baroda. Zonal Stressed Assets Recovery Branch, 13th Floor, 16, Parliament Street for an amount of Rs. 9,81,40,391/- (Rupees Nine Crore Eighty One Lac Forty Thousand Three Hundred Ninety One Only) as on 15.02.2019 together with further interest thereon plus other charges and expenses.

The borrower's attention is invited to provision of Sub-Section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Described of the Immovable Property:

Equitable Mortgaged of freehold build up property No. on land measuring area 782.70 sq. yards out of Khasra No. 466 and Khewat No. 45 situated in the village civil station in Court Lane, Civil Lines, Delhi-110054, entire Lower Ground Floor built up Property bearing No. 6, having its covered area 3500 sq. fts. at Sehgal Colony, Court lane, Civil Lines, Delhi in the name of Shri Kavit Manchanda S/o Vijay Manchanda.

North: 51 feet wide road, South: Service Lane, East: Court Lane, West: Plot No. 5 Date: 26.08.2020, Place: New Delhi Authorised Officer, Bank of Baroda

Bounded as under:



ZOSARB, 13th Floor, Bank of Baroda Building, 16 Sansad Marg, New Delhi-110001 Ph.: 011-23441320, Mobile- 9711908984, E mail- armdel@bankofbaroda.com

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

"APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 9(1)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" for recovery of below mentioned account/s. The details of Borrower/s/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below -

| Sr. No. | Name & address of Borrower/s / Guarantor/s | Description of the immovable property with known encumbrances, if any | Total Dues | Reserve Price (Rs.) EMD Bid Increase Amount | Date and time of E-auction | Status of Possession (Constructive /Physical) | Property Inspection date & Time. |
|------------|---|--|---|---|--|--|--|
| 1 | Sector-22, Udyog Vihar, Cghs Apartments, Phase-1 Dwarka, New Delhi - 110078, Business Address: A-54, Sector 64, Noida, Gautam Budha Nagar - 201301, Uttar Pradesh (2) Mr. Rakesh Kumar, S/o Late Mr. Bhag Singh Bisht (Director and Guarantor) | Floor, Plot No. 12, Udyog Vihar, CGHS Ltd, Sector - 22, Phase - 1, Dwarka, Delhi-110077 standing in the name of Mrs. Ilika Bisht W/o Mr. Rakesh Kumar and Mr. Rakesh Kumar, S/o Late Mr. Bhag Singh Bisht with a plinth area of 103.23 Sq. Mtrs., Bounded as: North - Entry / Passage / Flat No. E-102, South - Open to sky, | Lac Nineteen Thousand Two Hundred Fifty Two and Paise Eighty one only) as on 02.04.2019 plus unapplied interest thereafter at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges, etc., as stated in the | ₹ 11,07,000/- ₹ 1,00,000/- | 23-09-2020 from 01.00 P.M. to 03.00 P.M. | Physical | 15-09-2020 from 11.00 AM to 04.00 PM |

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm

and https://ibapi.in also, prospective bidders may contact the authorized officer Mr. P. Gangte on Tel No. 011-23441320 Mobile 9711908984

Date: 29-08-2020, Place: New Delhi

Authorized Officer, Bank of Baroda



Andhra

Union Bank REGIONAL OFFICE, Delhi (Central), Faiz Road, Jhandewalan,

> New Delhi-110005, E-mail: cb8821rec@unionbankofindia.com

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Guarantors that the below described properties mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 15.09.2020 for recovery of the dues mentioned below due to the Union Bank of India (Secured Creditor) from the below mentioned Borrowers and Guarantors. The reserve price, earnest money deposit and other details are as mentioned

| s. | Name of the Branch of Borrower & Description of the Immovable | Constructive | Dues to be | Reserve Price (Rs.) | Date and Time of Auction | Date & Time of | | | | |
|---------|---|---|--|---------------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------------------|
| 7/17/20 | Authorised Officer | of Borrower & | property put for auction | or Physical Possession | recovered from Borrower/ | EMD | EMD (with unlimited | inspection of | | |
| Cossina | & Contact No. | Guarantor | Waster Control of the Late Control of Contro | taken | Guarantor (Rs.) | Bid Increment | extension of 5 minutes each) | property | | |
| 1 | Rajouri Garden Virangna Raj (AO) | Vertex India, 321/2 Opp. Power House, | Flat No. 103, Tower No. 10, First Floor, | | Rs. 3,02,34,658.86 | Rs. 130.00 Lakhs | 15.09.2020 | 08.09.2020 | | |
| | 8874142828 | MG Road, Near SBI, Gurugram Mr. Vikas Tyagi S/o Shri Praveen Tyagi and | Velley View Estate, Gurugram, Faridabad Road, Gurugram, Haryana- | Possession | as on 17.09.2016 and interest | Rs. 13.00 Lakhs | 11:00 AM | 03.00 PM to | | |
| | | Mrs. Jyoti Tyagi W/o Shri Vikas Tyagi (Borrower) Address: Flat No.103, Tower No.10, First Floor, Velley View Estate, Faridabad, Gurugram, Haryana-122001 | 122001 measuring 2273.87 Sq.feet (211.25 sq.mts.) Bounded as: North - Corridor, South - Open/Parking, East - Tower no-12, West-Flat No-102 | | & Cost thereon | Rs. 0.50 Lakh | to 01.00 PM | 05.00 PM | | |
| 2 | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | M/s Netsol Projects Itd | Rear side portion on second floor out | | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF | Rs. 103.00 Lakhs | 15.09.2020 11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 AM | 08.09.2020 |
| | Gaurav Kumar, CM, | | of property bearing number 252-B, prince plaza, built on plot number 201 | Possession | as per Demand Notice | Rs. 10.30 Lakhs | | | | 52.579.669.70.485.736.76 |
| | Catholics: | | and 202 Garhi, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065 in the name of Mrs. Sunita Agarwal | | dt 01-08-2019 | Rs. 0.50 Lakh | 10 01.00 1.00 | 05.00 PM | | |
| 3 | Subzi Mandi | Rekha and Anil | Third Floor, bearing property no. 1 & | | 15.09.2020 | 08.09.2020 | | | | |
| | Sh. Jagdhari | | 2, Pocket-2, Sector-22, Rohini, Delhi- 110085 of 1033.34 sq ft. in the name of | Possession | ession as per Demand Notice | Rs. 7.70 Lakhs | 11:00 AM to 01.00 PM | 03.00 PM to | | |
| | | | Rekha | | dt 13-02-2017 | Rs. 0.50 Lakh | 10 01.00 FM | 05.00 PM | | |

E Auction Agent Details: M/s 4CLOSURE, website www.bankauctions.in Helpline No. 08142000062/66 (M) Tel: 040-23836405)

Contact person Mr. Vikas-8142000809 E-mail- vikas@bankauctions.in & info@bankauctions.in This notice also be treated as notice u/r 8(6) & proviso u/r 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding

of E-Auction Sale on the above mentioned date.

submission of bid: 14-09-2020 by 5PM

Authorized Officer, UNION BANK OF INDIA

Rajasthan Cylinders and Containers Ltd

Regd. Office: SP - 825, Road No. 14, V K I Area, Jaipur -302013, Tel.: 91-141-2331771-2; Fax: 91-141-2330810; E: info@bajoriagroup.in; W: www.bajoriagroup.in; CIN No: L28101RJ1980PLC002140 EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2020 (Amt in Lakhs)

Quarter ended

| S. No. | Particulars | 31.03.2020 | 31.12.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2019 |
|-----------|--|------------|--------------|---|---|--|
| neu. | 52-000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (Audited) | (Un-Audited) | (Audited) | (Audited) | (Audited) |
| 1. | a) Revenue from operations | 451.21 | 334.57 | 1,517.22 | 1,993.46 | 5,359.12 |
| | b) Other Income | 64.64 | 9.22 | 28.05 | 127.07 | 102.02 |
| | Total Income | 515.85 | 343.79 | 1,545.27 | 2,120.53 | 5,461.14 |
| 2. | Net Profit / (Loss)for the period (before Tax, | | 27.7 | 100 | | 86 |
| | Exceptional and/or Extraordinary items) | (144.19) | (112.95) | (174.96) | (509.95) | (377.88) |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before Tax | | 00000000 | 0000959U5 | | 100000000 |
| | (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (144.19) | (112.95) | (174.96) | (509.95) | (377.88) |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after Tax | | NON-ANTONIA | 900000000000000000000000000000000000000 | ZITOMASHION | 202000000 |
| 3510 | (after, Exceptional and/or Extraordinary items) | (100.31) | (68.06) | (122.77) | (351.38) | (258.13) |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period | | | | | |
| 0.50 | [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) | | | | | |
| 84 | and other comprehensive income (after tax)] | (79.94) | (72.14) | (104.22) | (324.31) | (289.60) |
| 6. | Equity Share Capital | 336.16 | 336.16 | 336.16 | 336.16 | 336.16 |
| 7. | Other Equity excluding revaluation surplus as per | | | | 000000000000000000000000000000000000000 | N. W. C. |
| 20-04 | balance sheet | 8 | 935 | 10 | 1,198.48 | 1,595.75 |
| 8. | Earning per Share of Rs. 10/- each | | | | | |
| 200 | (for continuing and discontinued operations) | | | | | |
| | a) Basic | (2.98) | (2.02) | (3.65) | (10.45) | (7.68) |
| | b) Diluted | (2.98) | (2.02) | (3.65) | (10.45) | (7.68) |

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved & taken on record by the Board of Directors at their meetings held on Aug 28, 2020. The Statutory Auditors have carried out the limited Review of the aforesaid results.

These Audited Standalone Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Non Current Assets- Loans include Rs. 56.31 Lakhs from a body corporate M/s. Ankur Drugs and Pharma Limited which is under

liquidation. The management is unable to estimate recoverability against such loans. The statutory auditors have qualified their report in respect of this matter. Management View: In the opinion of management, the loan given to above party is good and recoverable as the company has

filed its claim with official liquidators. V. The interest payable on u/s 16 of MSMED Act, 2006 on overdue amount of trade payable to micro enterprises and small enterprises has not been ascertained and not provided for.

. The outbreak of COVID-19 pandemic had disrupted regular business operations of the Company due to the lock down restrictions and other emergency measures imposed by the Government from time to time. The business operations have recommenced on a limited scale post relaxation of lockdowns. The management has taken into account the possible impacts of known events, upto the date of the approval of these financial results, arising from COVID-19 pandemic on the carrying value of the assets and liabilities as at 31 March 2020. However, there exists significant estimation uncertainty in relation to the future impact of COVID-19 pandemic on the Company and, accordingly, the actual impact in the future may be different from those presently estimated. The Company will continue to monitor any material change to the future economic conditions and consequential impact on the financial results.

There were no Investor Complaints pending at the beginning and end of the Quarter. No Complaint was received during the

III. The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and yearly Audited Financial Results is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.bajoriagroup.in).

(II. Figures for the previous period have been regrouped/rearranged wherever necessary to conform to current year presentation. The figures of the quarter ended 31st March, 2020 year and quarter ended 31st March, 2019 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figure upto the end of third quarter of respective financial year which were subject to limited review.

BY ORDER OF THE BOARD For Rajasthan Cylinders and Containers Ltd

Avinash Bajoria (Managing Director)

DIN: 01402573

Date: 28.08.2020

Place: Jaipur

Mahaan Foods Limited

Regd. Office: M-19, 1st Floor, M-Block Market, Greater Kailash-II New Delhi - 110048

Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: info@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com CIN: L15419DL1987PLC350285) Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 30-06-2020

| S. | Particulars | Quarter Ended | Quarter Ended | Year End |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| No. | | 30/06/2020 Unaudited | 30/06/2019 Unaudited | 31/03/20 Audited |
| 1 | Total income from operations | 20.65 | 96.23 | 588.10 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 7.53 | 22.99 | 169.65 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 7.53 | 22.99 | 169.65 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 4.86 | 20.72 | 105.55 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 4.86 | 20.72 | 105.5 |
| 6 | Equity Share Capital | 350.07 | 350.07 | 350.0 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | - | - | 1448.22 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - | | | |
| 1 | (1.) Basic: | 0.14 | 0.59 | 3.02 |
| | (2.) Diluted: | 0.14 | 0.59 | 3.02 |

meeting held on 28th August, 2020 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the company's website www.mahaanfoods.com.

Managing Director DIN: 0022109

Date: 28/08/2020

Place: New Delhi



UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR OFFICE THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (R&B) CONST. DIVN. NO. I, JAMMU SHORT NOTICE INVITING TENDER

Short e-NIT No. CD-I/26 of 2020-21 Dated 26-08-2020

For and on behalf of the Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir e-Tenders are invited on item rate basis from approved and eligible Contractors registered with Union Territory of J&K, CPWD, Railways and other State/Central Governments for each of the following works:

| No. | | Division | Cost (₹ in lacs) | Document (in ₹) | Money (in ₹) | for Complete on | Date of Opening of Tender | Contractor |
|-----|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Improvement/ up-gradation of road by way of Providing and laying of WMM, 50mm thick BM including 25mm thick SDBC on: 1. Kotli Galabana to Khana Chak Purobana road. 2. Link road Rangpur Sidray. 3. Chowala to Badyal Qazian road. 4. Link road to Thikerian (Under City and Town Programme) | Const. Divn. No. I Jammu | 143.00 | 6000 | 286000 | 01 Month | (1400 Hrs) on or after 03-09-2020 | Hot Mix Plant Holder/ "A" Class |
| 2 | Improvement / up-gradation of road by way of Providing and laying of WMM, 50mm thick BM including 25mm thick SDBC on :- 1 Jinder Mellu to Rathana road. 2 Shera Chak to Shamshan Ghat all allied links Chak Talab. 3 Link road Chak Bakhtawar and Bhojpur. 4 Link road Nowabad and Panjgran Thikerian (Under City and Town Programme) | Const. Divn. No. I Jammu | 119.69 | 6000 | 239380 | 01 Month | (1400 Hrs) on or after 03-09-2020 | Hot Mix Plant Holder/ "A" Class |
| 3 | Improvement / up-gradation of road by way of Providing and laying of Wet Mix Macadam, 50mm thick BM including 25mm thick and 30mm thick SDBC on roads in Sector-7,10,12 and 13 Nanak Nagar, Jammu (Under City and Town Programme) | Const. Divn. No. I Jammu | 106.80 | 6000 | 213600 | 01 Month | (1400 Hrs) on or after 03-09-2020 | Hot Mix Plant Holder/ "A" Class |
| 4 | Up-gradation of road by way of RBM Filling, providing and laying of Wet Mix Macadam, 50mm thick BM including 25mm thick SDBC on road from NH-IA Bye-Pass to Chowadhi including road in Dera Mohalla, Bhatti Mohalla and Friends Colony Chowadhi Jammu (Under City and Town Programme) | Const. ´ Divn. No. I Jammu | 34.67 | 1000 | 69340 | 15 Days | (1400 Hrs) on or after 03-09-2020 | Hot Mix Plant Holder/ "A" & "B" Class |
| 5 | Improvement / up-gradation of road by way of Providing and laying of Wet Mix Macadam, 50mm thick BM including 30mm thick SDBC on Nanak Nagar to Sanjay Nagar via Sector-8, Dudhadhari Temple Shastri Nagar road and Sunny Book Centre Nanak Nagar upto Main road including roads in Shastri Nagar near Lal Chowk Sanjay Nagar (Under City and Town Programme) | Const. Divn. No. I Jammu | 29.97 | 1000 | 59940 | 15 Days | (1400 Hrs) on or after 03-09-2020 | Hot Mix Plant Holder/ "A" & "B" Class |
| 6 | Restoration of road surface by way of construction of Pucca Drain including 1 No. Crossing near Dera Mohalla Chowadhi on Dilli Birpur road (Under OFC) | Const. | 15.58 | 600 | 31160 | 01 Month | (1400 Hrs) on or after 03-09-2020 | "A", "B", "C" Class |
| 7 | Construction of Drain and link lane by way of providing and laying of RBM Filling, 100mm thick WBM Grade-II (Shingling), 75mm thick WBM Grade-III (Metalling) at | Const. Divn. No. I | 6.89 | 600 | 13780 | 01 Month | (1400 Hrs) on or after 03-09-2020 | "A", "B", "C" & "D" Class |

The Bidding documents Consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, Drawings, bill of quantities (B.O.Q), Set of terms and conditions of contract and other details can be seen/downloaded from the departmental website http://jktenders.gov.in as per below schedule:

Date of Issue of Tender Notice 26-08-2020 Period of downloading of bidding documents

> (Er. Parvez Malik) **Executive Engineer** PWD (R&B) Const. Div. No. I, Jammu

DIP/J-3891/20

Vasant Vihar Extn.3 behind Royal Nest I

Flats Trikuta Nagar Jammu

New Delhi

From 26-08-2020 to 02-09-2020, 1630 Hrs

financialexp.er

Date: 29-08-2020 Place: New Delhi

Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh-174101, Distt. Solan (H.P.) Tel: 9218423157, Website: www.bccfuba.com

<u>NOTICE</u> (For the attention of Equity shareholders of BCC Fuba India Limited for

Email registration) The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General circular No. 20/2020 date May 05, 2020 and read with General Circular No. 17/2020 dated April 13th 2020 & Genera Circular No. 14/2020 dated April 8th 2020 permitted the holding of General Meeting of the companies through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) in light o the prevailing pandemic situation caused by COVID-19 in the country. In compliance with these Circulars and pursuant to the proviso to Rule 18(3)(i) of Companies (Managemen and Administration) Rules, 2014 and all the relevant provisions of the Companies Act, 201 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the

Company will send the Notice for its upcoming Annual General Meeting ("AGM") and

Annual Report for the Financial Year 2019-20 only through electronic mode to those

shareholders whose E-mail addresses are registered with the depository participants

Registrar and Transfer Agent (RTA). Shareholders who have not registered their E-mail address are requested to register the E-mail address through our Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. Link Intime India Pv Ltd. by accessing the following link:

https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html

Shareholders are requested to register their Email ID only if the same is not registered with the Depository Participant or Registrar and Transfer Agent (RTA) or to update a fresh emai

For BCC Fuba India Limite Dinesh Kumar Yada

Company Secretary & Compliance Office

IDFC FIRST

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

Place : New Delhi

Date : 29.08.2020

IDFC FIRST

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792 **पंजीकृत कार्यालय** : के आरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिगटन रोड, चेटपेत,

चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022 अधिकृत प्राधिकारी : रोहित दुदेजा । सम्पर्क नम्बर : 7838324723 परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभत हित (प्रवर्तन) नियम. 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा पूर्वतन के प्रतिभतिकरण एवं पूर्नीमाण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेत ई-नीलामी विक्रय सचना।

एतदारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सचित किय जाता है कि प्रतिभत लेनदार के पास गिरवीकत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्प्रति जिस पर कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकत प्राधिकारी के अधिकत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है. अनन्ता बारिक, आशाश्री मोहपात्रा, आशाश्री कंज्यूमर गुड्स प्रा.लि. (कर्जदार-सहकर्जदार) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के 19 10 2019 तक बकाये रू 35 84 609 55/- की वसली के लिए 06 10 2020 को 'जहाँ है जैसे है'', ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य रू 22 00 000/- होगा तथा जुमा धरोहर राशि रू 2 00 000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति अपर ग्राउण्ड फ्लोर सम्पत्ति सं. एस-226, खसरा नं. 21/3, ग्राम रजापुर खुर्द, कॉलोनी, मोहन गार्डन, ब्लॉक-एस, उत्तम नगर, नई दिल्ली। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट www.idfc

firstbank.com में प्रावधानित लिंक देखें। अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई


हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है। अधिकत प्राधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)

प्रशांत भूषण को कल सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत 31 अगस्त को सजा सुनाएगी। न्यायमृर्ति अरुण



रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती हैं। के सुझाव को खारिज किए जाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने 25 अगस्त को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि शीर्ष अदालत की ओर से 'स्टेटसमैन जैसा संदेश' दिया जाना चाहिए और भूषण को शहीद न बनाएं। तीन न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मिश्रा ने सजा के मुद्दे पर उस दिन अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को भूषण को न्यायापालिका के खिलाफ उनके दो अपमानजनक ट्वीट के लिए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। भूषण का पक्ष रख रहे धवन ने भूषण के पूरक बयान का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि वे अपने 14 अगस्त के फैसले को वापस ले ले तथा कोई सजा न दे। उन्होंने अनुरोध किया कि न सिर्फ इस मामले को बंद किया जाना चाहिए, बल्कि विवाद का भी अंत किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत से अनुरोध किया कि वह भूषण को इस संदेश के साथ माफ कर दे कि उन्हें भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं मुरारी भी शामिल हैं।

दोहराना चाहिए। पीठ में न्यायमुर्ति बीआर गवई और न्यायमुर्ति कृष्ण

Jägän

तिथि: 28 अगस्त, 2020

स्थानः कुण्डली

जगन लैम्प्स लिमिटेड

lägän (CIN: L31501HR1993PLC033993) पंजी. कार्यालयः नरेला पियाव मनिहारी रोड, कुंडली, जिला सोनीपत-131028, हरियाणा टेली.: + 918814805077, ई-मेल: sales@jaganlamps.com,

वेबः www.jaganlamps.com 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में

| क्रम | विवरण | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त वर्ष |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| सं. | | 30.6.2020 (अनंकेक्षित) | 30.6.2019 (अनंकेक्षित) | 31.3.2020 (अंकेक्षित) |
| 1. | परिचालनों से कुल आय | 334.71 | 509.28 | 2363.01 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) | 10.92 | 57.52 | 224.13 |
| 3. | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 10.92 | 57.52 | 224.13 |
| 4. | कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद) | 7.51 | 43.27 | 169.51 |
| 5. | अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) | 7.51 | 43.27 | 169.51 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति) | 688.95 | 688.95 | 688.95 |
| 7. | आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) | - | - | 1259.72 |
| 8. | आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) | | | |
| | 1. मूल | 0.11 | 0.63 | 2.46 |
| Ш | 2. तरल | 0.11 | 0.63 | 2.46 |
| टिप्प | णी: | | · | |
| 1 | | | | |

उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा विधिवत समीक्षा की गई तथा 28.8.2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज के पा दाखिल की गई 30.6.2020 को समाप्त तिमाही के अनंकिक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30.6.2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट www.Jaganlamps.com तथ स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) अपनाई है। उक्त संक्रमण उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमावली के साथ पेठित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित तात्कालिक लेखा मानकों से किया गया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से जगन लैम्प्स लिमिटेड

हस्ता./ आशीष अग्रवाल (प्रबंध निदेशक)

महान फूड्स लिमिटेड

टेली.: 011-43107200, फैक्स: 011-43107250, ईमेल: info@mahaanfoods.com वेबसाईट: www.mahaanfoods.com, (CIN: L15419DL1987PLC350285)

| | | | (जब तक अन्यथा व | नथित न हो रु. लाख में |
|------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| क्रम | (विवरण) | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त वर्ष |
| सं. | | 30.6.2020 अनंकेक्षित | 30.6.2019 अनंकेक्षित | 31.3.2020 अंकेक्षित |
| 1. | परिचालनों से कुल आय | 20.65 | 96.23 | 588.10 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मर्दों से पूर्व) | 7.53 | 22.99 | 169.65 |
| 3. | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद) | 7.53 | 22.99 | 169.65 |
| 4. | कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों के बाद) | 4.86 | 20.72 | 105.55 |
| 5. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल) | 4.86 | 20.72 | 105.53 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 350.07 | 350.07 | 350.07 |
| 7. | आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन-पत्र में दर्शाई गई है | = | - | 1448.22 |
| 8. | आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) (1. मूल : (2. तरल : | (0.14) (0.14) | 0.59 | 3.02 3.02 |

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 28 अगस्त, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख

में लिये गये। उपरोक्त सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 <mark>के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखि</mark>ल तिमाही वित्ती परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पर्न

<mark>नहान फूड्स लिमिटेड के लि</mark>ये

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 28.08.2020

संजीव गोयत प्रबंध निदेशव DIN: 00221099



बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : L.15492WB1924GOI004835 दरभाष नं. : 033 22225329, 033 22225313

ई-मेल : bhavsar.k@balmerlawrie.com, sen.k@balmerlawrie.com वेबसाइट : www.balmerlawrie.com

103वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा ई-वोटिंग संसूचना की सूचना

सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' सन्दर्भित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत अनुषंगी नियमों एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र दिनांक 12 मई. 2020 के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 103वीं वार्षिक ऑम बैठक टू-वे वीडियो कांफ्रेंसिंग (''<mark>वीसी''</mark>) अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (''<mark>ओएवीएम''</mark>) के माध्यम से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को 12.00 बजे दोपहर

कथित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं और यह कम्पनी की वेबसाइट https://www.balmerlawrie.com/ तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइटों, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे और यह सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड तथा वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति किसी सदस्य के पास नहीं भेजी जायेगी।

सकते हैं

103वीं एजीएम की सचना में लिखित निर्देशों के अनुसार एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते

कम्पनी के साथ ई-मेल पते पंजीकत कराने की प्रणाली

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपना ई–मेल पता पंजीकत कराने के लिए मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड. इकाई–बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड. कम्पनी के रजिस्टा एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) से 18 सितम्बर, 2020 (ईओडी) तक निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :

सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी,

iii. निःशल्क 1800 3454001: दरभाष : 040-67161570/040-23001153/040-67162222.

डिमैट खाते हैं।

पुनः सदस्यों से केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास उपर्युक्त के सम्बन्ध में विवरण 18 सितम्बर, 2020 (भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए प्रयोज्य) तक या इससे पूर्व प्रस्तुत अधिसूचित करें :

बैंक खाता संख्या, आईएफएससी तथा एमआईसीआर कोड, बैंक का नाम तथा पते का विवरण। ग. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति, यदि पहले से नहीं उपलब्ध करायी गयी है।

विवरण का उपयोग कम्पनी द्वारा लाभांश के इलेक्टॉनिक क्रेडिट/डिस्पैच के लिए किया जायेगा। कम्पनी अथवा इसका आरटीए इलेक्टॉनिक पारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से प्राप्त बैंक विवरण या बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन के निवेदन पर कार्यवाही नहीं कर सकते

अपने समस्त सम्पर्क पतों में सदस्य लेजर फोलियो या क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी नम्बर या तो कम्पनी या आरटीए को कोट करें। बुक क्लोजर : एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभांश के वितरण के उद्देश्य से शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020

तक (दोनों तिथियाँ शामिल) बन्द रहेंगी। मतदान : इस एजीएम की सूचना में लेन-देन किये जाने वाली मदों हेतु मतदान केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉनिक

वोटिंग द्वारा सम्पन्न होगी। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को 09.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे सायं समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इस अवधि के दौरान कट–ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2020 (दिन के अन्त तक) भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

लाभांश : सदस्यों द्वारा घोषणा के उपरान्त वित्त वर्ष 2019-20 हेतु लाभांश ऐसी घोषणा की तिथि से 30 दिनों की विधिक समय-सीमा के भीतर उन शेयरधारकों को प्रदान किये जायेंगे जो 18 सितम्बर, 2020 (दिन के अन्त तक) तक कम्पनी के शेयर धारण करते हैं।

तिथि : 28 अगस्त, 2020

कृते बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड कविता भावसार

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

[प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम s(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार] बिक अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण नर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ प्रतित धारा 13(12) के तहत दत्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे ल्लिखित के अनुसार कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों क[े] भीतर सूचना में उल्लिखित राशि n पनर्भगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

रणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वार नूचना दी जाती है कि अधोहरताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) . 5 तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेताव दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर ब्याज और नीचे ल्लिखित तिथि से दण्डात्मक ब्याज प्रभारों लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वे

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार∕रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| ऋण | दायित्वधारी(यों) ⁄ विधिक उत्तराधिकारी(यों) ∕ विधिक | माँग सूचना के अनुसार | कब्जा करने |
|--------------|---|----------------------------|---------------|
| खाता सं. | प्रतिनिधि(यों) के नाम | राशि | की तिथि |
| 10125654 | श्रीमती रेखा रानी (कर्जदार) | 28 मई, 2018 तक | 25.08.2020 |
| | एवं श्री प्रवीण कुमार (सह-कर्जदार) | रु. 13,65,724/− | |
| प्रतिभृत आर् | स्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : सम्पु | ण दुकान नं. ३३, अपर ग्राउप | ण्ड फ्लोर, छत |

5 अधिकार रहित, कुल माप क्षेत्रफल 09.45 वर्ग मीटर, भवन सं. 24, मोहन प्लाजा 9मोहन सिटी सेंटर), मोहल बालु पुरा (हरदेव सहाय), रमते राम रोड, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद पर स्थित।

तिथिः 29.08.2020 स्थानः दिल्ली ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792 ांजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022

अधिकृत प्राधिकारी : रोहित दुदेजा । सम्पर्क नम्बर : 7838324723

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

रतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, अमीर हुसैन, रुखसाना बेगम (कर्जदार–सहकर्जदार) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के 01.08.2019 तक बकाये रु. 1248219/- की वसली के लिए 06.10.2020 को ''जहाँ है जैसे है''. ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य रु. 5,60,000/- होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 56.000/- होगी

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति दुकान नं. डी02/009/2ए, भूतल, डीएलएफ, दिलशाद प्लाजा एक्सटेंशन-II, ब्रह्मपुरा उर्फ भोपारा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद का सम्पूर्ण भाग।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट www.idfcfirstbank.com में प्रावधानित लिंक देखें।

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेंड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

अधिकत पाधिकारी (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) दिनांक : 25.08.2020

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड दिनांक : 25.08.2020



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMI

Our Company was incorporated in Bombay as a private limited company on February 26, 1934 as Mazagon Dock Private Limited with the Registrar of Companies, Bombay unde the Indian Companies Act, 1913. For further details in connection with change in name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" - Brie history of our Company" and "History and Certain Corporate Matters-Changes in the Registered Office" on pages 144 and 144 respectively of the Draft Red Herring Prospectus. Registered and Corporate Office: Dockyard Road, Mumbai - 400010, Maharashtra, India, Contact Person: Vijayalakshmi Kumar, Company Secretary and Compliance Officer Telephone: +91 22 2376 2000 E-mail: investor@mazdock.com; Website: https://mazagondock.in; Corporate Identity Number: U35100MH1934GOI002079

ADDENDUM DATED AUGUST 27, 2020 TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED AUGUST 5, 2019: NOTICE TO INVESTORS (THE "ADDENDUM")

THIS IS IN RELATION TO THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") THROUGH AN OFFER FOR SALE BY THE PRESIDENT OF INDIA, AĆTING THROUGH THE MINISTRY OF DEFENCE, GOVERNMENT OF INDIA (THE "SELLING SHAREHOLDER"), FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]* PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹[•] MILLION (THE "OFFER").

SUBJECT TO RECEIPT OF NECESSARY APPROVALS FROM THE GOVERNMENT OF INDIA ("GOI"), [•] EQUITY SHARES MAY BE RESERVED FOR ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS EMPLOYEE RESERVATION PORTION (IF ANY) IS REFERRED TO AS THE NET OFFER. THE OFFER WILL COMPRISE OF A NET OFFER OF 25,211,250** EQUITY SHARES AND THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION OF [●] EQUITY SHARES. THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION, IF ANY, SHALL NOT EXCEED 5.00% OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND 12.50% RESPECTIVELY OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. *A discount of up to [●]% (equivalent to up to ₹[●] per Equity Share) on the Offer Price may be offered to Retail Individual Bidders ("Retail Discount") and to Eligible Employees

("Employee Discount") bidding in the Retail Portion and the Employee Reservation Portion, respectively (if any).

There has been a reduction in the size of the Offer on account of the buy back of 22,410,000 Equity Shares undertaken by our Company from the existing shareholders pursuant to the Board resolution dated January 28, 2020. Accordingly, the size of the Net Offer has changed from 28,012,500 Equity Shares as disclosed in the DRHP to 25,211,250 Equity Shares. The Net Offer continues to constitute 12.50% of the post-Offer Equity Share capital of the Company. Potential Bidders may note the following:

a. The Draft Red Herring Prospectus currently includes details of the restated audited consolidated statements as at and for the financial years ended March 31, 2019, 2018 and 2017. Due to lapse of time, and on account of availability of updated financial information, the section titled "Financial Statements" has been updated to provide the updated consolidated financials of the Company as at and for the financial years ended March 31, 2020, 2019, 2018 and 2017 of the date of the Addendum. Please note that audited financial statements for the financial year ended March 31, 2020 have not been certified by the Comptroller and Auditor General of India; and b. The Draft Red Herring Prospectus currently includes details of directors of the Company, namely, Rakesh Anand, Rajiv Lath and Sanjiv Sharma whose terms have expired and

they are no longer on the Board of our Company. Due to the appointment of new directors on the Board of our Company, the section titled "Our Management" has been updated to provide biographies, including educational qualification and prior work experience of the new directors, namely, Narayan Prasad as the Chairman and Managing Director, Jasbir Singh as the Director (Submarine & Heavy Engineering) and Sanjeev Singhal as the Director (Finance) in the Addendum. Please note that all other details and updates will be carried out in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC. Potential Bidders may note that in order to assist the Bidders to get a complete understanding of the updated information, the section "Financial Statements", "Other Financial

Information" and "Our Management" has been included in the Addendum. The above is to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus. The information in this notice supplements the Draft Red Herring Prospectus and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus, as applicable. Please note that the changes pursuant to the Addendum will be appropriately included in the Red Herring Prospectus

and the Prospectus, as and when filed with the RoC. All capitalised terms used in this notice shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus. **BOOK RUNNING LEAD MANAGERS**

YES / SECURITIES

YES SECURITIES (INDIA) LIMITED Address: Unit No. 602 A. 6th Floor. Tower 1 & 2, IFC Senapati Bapat Marg,

Elphinstone Road, Mumbai- 400 013 Telephone: +91 22 3012 6919 Email: mdl.ipo@ysil.in Website: www.yesinvest.in Investor Grievance ID: iqc@vsil.in

IDFC

IDFC SECURITIES LIMITED*

Contact Person: Gaurav Mittal

Place: Mumbai. Maharashtra

Date : August 29, 2020

Contact Person: Mukesh Garg/ Pratik Pednekar SEBI Registration Number: INM000012227

with regulatory requirements to effect the change of its

name from IDFC Securities Limited to DAM Capital

Advisors Limited in the records of stock exchanges /SEBI.

*IDFC Securities Limited is in the process of complying

Address: One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Telephone: +91 22 4202 2500 Email: mazagon.ipo@idfc.com Website: www.idfc.com/capital/index.htm Investor Grievance ID: Investorgrievance@idfc.com

SEBI Registration Number: MB/INM000011336

sales are made. There will be no public offering in the United States.

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED Address: Axis House. 1st Floor.

Wadia International Centre Pandurang Budhkar Marg. Worli, Mumbai -400 025 Telephone: + 91 22 4325 2183 Email: mazagon.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Contact Person: Mayuri Arya/Akash Aggarwal

SEBI Registration Number: INM000012029 **BOOK RUNNING LEAD MANAGERS**

JM FINANCIAL

Address: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025. Telephone: +91 22 6630 3030 Email: mdl.ipo@imfl.com Website: www.jmfl.com

JM FINANCIAL LIMITED

Investor Grievance ID: grievance.ibd@jmfl.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration Number: INM000010361

Edelweiss

EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED Address: 14th Floor, Edelweiss House Off. C.S.T Road, Kalina, Mumbai -400 098 Telephone: +91 22 4009 4400 Email: mdl.ipo@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Investor Grievance ID: customerservice.mb@edelweissfin.com Contact Person: Nishita John SEBI Registration Number: INM0000010650

Clankit

REGISTRAR TO THE OFFER

ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED Address: 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055 Telephone: +911- 4254 1954/971/933, +922-4348 1293 Email: kamalarora@alankit.com.

abhinavka@alankit.com Website: www.alankit.com Investor Grievance ID: mdligr@alankit.com

Contact Person: Kamal Arora/ Abhinav Kumar Agrawal/Virender Sharma
SEBI Registration Number: INR000002532

For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED On behalf of the Board of Directors

Sd/-Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED is proposing, subject to, applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Addendum with SEBI on August 28, 2020. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus or Addendum for making any

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") or any state securities laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and

कार्यालय में आवेदक के अग्रसारित करें। .. आवेदक के लिये तथा उसकी ओर र तिथिः 08.08.2020 स्थानः दिल्ली

भूषण द्वारा न्यायालय की तरफ से माफी मांगने

न्यायमूर्ति मिश्रा दो सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गुजरात : पासा अधिनियम का होगा विस्तार

अमदाबाद, २९ अगस्त (भाषा)।

गुजरात सरकार ने अब असामाजिक गतिविधि रोकथाम (पासा) अधिनियम को साइबर अपराधियों. साहकारों और यौन अपराधियों पर भी लगाने का निर्णय किया है। इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena New Friends Colony, New Delhi-110025 NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to clause 29 of the SEBI (LODR)

Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company wil be held on Saturday, the 5th day of September, 2020 at the Registered Office of the Company, inter-alia, approve and take on record the un-audited financial results for the quarter ended on 30th June, 2020.

Vandana Gupta Company Secretary Date: 28.08.2020 (कृभ्या (निरामन) नियम, 2014 का नियम 30 के अनुसरण मु केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समझ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप—धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप—नियम (5) के उप्वाक्य (क) के मामले में

For National General Industries Ltd

By order of the Board

श्री सिद्धवली इस्पात लिमिटेड (CIN:U27109DL2004PLC128830) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिपका रिजिस्ट्रीकृत कार्यालय : डी. 5-5/532, संगम विहार, नियर अमन हॉस्पिटल नई दिल्ली 110062 में है, के मामले में

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधान क्षेत्र दिल्ली से महाराष्ट्र राज्य में अंतरित करने के लि आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी सोमवार 24 अगस्त, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र पंजध्य" में परिवर्तित करने ले एक क्यानी के संस्था के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्यानी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय नेदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती हैं। प्रस्ताव के संदर्भ में अपने

सार्वजनिक सचना

कोई भी व्यक्ति जिस्का कम्प्नी के पंजीकृत कार्याल् के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित का संभावना हा, वह अपना हत के प्रभाव सं संवाहन अभाव सं त्यार्थ के आश्रम एवं आपति हो एए एक आश्रम एवं आपति हो एए एक शायध्यत्र के साथ अपनी आपति एमसीए—21 पोटल (www.mca.gov.in) पर निवेशक हिंगकाचत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कांपोरिट कार्य महात्वर श्री—विंग, दूसा तृत्य, यांव्यादरण अवन, सीजीओ कोंग्लेक्स, लोधी रोड

तल, पयोवरण भवन, साजाआ काम्भ्लयस, लाधा राष्ट्र नई दिल्ली—110003 के गुप्त इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के सीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए : रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : डी-5/532, संगम विहार, नियर अमन हॉस्पिटल नई दिल्ली 110062

कृत्ते श्री सिद्धबली इस्पात लिमिटेड तिथि : 28.08.2020 स्थान : दिल्ली सौरभ संजय अग्रवाल प्रबंध निदेशव डीआईएन : 03102986

प्रपत्र सं. आईएनसी-19

सूचना [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के अनुपालन एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 की उप-धारा (4) के उपबंध (ii) के

अनपालन में मै. ओ? एलाएंस फाउण्डेशन द्वारा कम्पर्न

रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा के पास कम्पनी अधिनियम

2013 की धारा 8(5) के अंतर्गत उसे जारी की गः

लाइसेंस के निरसन के लिये एक आवेदन किया गया है

लाइसेंस के निरसन के बाद कम्पनी को अपने नाम मे फाउण्डेशन की जगह "प्राइवेट लिमिटेड" शब्द जोड़न (1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (4)(ii) वे प्रावधानों के अनुसार लाइसेन्स के निरसन के बाद कम्पन

का प्रधान उददेश्य इस प्रकार होगा: (1) व्यक्तियों, फर्मों, व्यावसायकि प्रतिष्ठानों, कम्पनियं निगमों, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय सामाजि अथवा अन्य संगठनों को तकनीकी. औद्योगिक वाणिज्यिक, विपणन, लीगल, कराधन, कॉरिटंग, लेखा कार्मिक (कर्मियों के चयन सहित), औद्योगिक संबध कम्पनी कानुन, आबकारी, उत्पाद-शुल्क, आयात तथ निर्यात. निवेश अथवा प्रबंधन के विषयों पर उनके लिय सलाहकार तथा परामर्शदाता (भारत तथा विदेश में) क

व्यवसाय करना. (2) प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप एमओए एवं एओए कं प्रति पंजीकृत कार्यालयः 4, सिंधिया हाउस, कनॉट सर्कस नई दिल्ली-110001 में देखी जा सकती है।

(3) एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किर्स व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम अथवा कॉर्पोरेट निकाय क इस आवेदन के प्रति आपत्ति हो तो वे कम्पनी रजिस्टा दिल्ली एवं हरियाण, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110017 को संबोधित एक द्वारा इस सचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर दिल्ली में रजिस्ट्रार के पास अपनी आपत्ति की सूचना दें तथा उसकी एक प्रति उपरोक्त पंजीकृ

> स्थान : कोलकाता ओ 2एलाएन्स फाउण्डेश हस्ता अजित अरविन्दक्ष मेन

DIN: 02391716

कम्पनी ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, तिथि तक यथा संशोधित की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित

पंजी. कार्यालय: एम-19, 1ला तल, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-Ⅱ, नई दिल्ली-110048

| | 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन | अनंकेक्षित वित्ती | ाय परिणामों का | सार |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | (जब तक अन्यथा व | निथत न हो रु. लाख में) |
| क्रम | विवरण | समाप्त तिमाही | समाप्त तिमाही | समाप्त वर्ष |
| सं. | | 30.6.2020 अनंकेक्षित | 30.6.2019 अनंकेक्षित | 31.3.2020 अंकेक्षित |
| 1. | (परिचालनों से कुल आय) | 20.65 | 96.23 | 588.10 |
| 2. | (अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदीं से पूर्व) | 7.53 | 22.99 | 169.65 |
| 3. | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद) | 7.53 | 22.99 | 169.65 |
| 4. | कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों के बाद) | 4.86 | 20.72 | 105.55 |
| 5. | (अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल) | 4.86 | 20.72 | 105.53 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 350.07 | 350.07 | 350.07 |
| 7. | आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन-पत्र में दर्शाई गई है | - | - | 1448.22 |
| 8. | आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) 1. मूल : | 0.14 | 0.59 | 3.02 |

की वेबसाईट www.mahaanfoods.com पर उपलब्ध है।

पंजीकृत कार्यालय : 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र

भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी।

इस एजीएम में एजीएम के दौरान लेन-देन की जाने वाली मदों पर मतदान केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा किया जायेगा। विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 103वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित हैं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य या जिनके ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकत नहीं है वे मतदान कर

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक प्रारूप में हैं अथवा जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपना मतदान उक्त

एपीजे हाउस, 15, पार्क स्ट्रीट, सी-ब्लॉक, तीसरी मंजिल, कोलकाता-700 016; अथवा

iv. ई-मेल : einward.ris@kfintech.com जिन सदस्यों के शेयर अभौतिक प्रारूप में हैं वे अपने उन डिपॉजिटरी भागीदारों के परामर्श के अनसार प्रक्रिया का पालन करें जहाँ उनके

क. पते (पिन कोड सहित), मैंडेट अदि में परिवर्तन। ख. मल कैंसिल चेक जिस पर प्रतिभृति धारक का नाम अंकित हो, जिसमें असफल होने पर बैंक पासबुक/बैंक द्वारा सत्यापित विवरण सहित

घ, जिन सदस्यों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में है वे ध्यान दें कि उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ पंजीकृत उनके बैंक हैं। डीपी द्वारा प्रभावित ऐसे परिवर्तन स्वतः ही कम्पनी के अनुगामी रिकार्ड में प्रतिबिम्बित होंगे।

कम्पनी सचिव एफ - 4767